

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.07.2022 जनपद देवरिया

दिनांक 18.07.2022 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 316 लीटर अवैध कच्ची व अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए कुल 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 02 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना गौरीबाजार द्वारा 05 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही -

दिनांक 18.07.2022 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष गौरीबाजार द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर 1-बाबूराम चौहान पुत्र रामसहाय पुत्र खपुरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 2-राजा राम चौहान पुत्र स्व0 राममनोहर चौहान सा0 विसवा खुर्द थाना तम्बीर जनपद सीतापुर 3-सोनेलाल उर्फ सोनू चौहान पुत्र रामजीवन सा0 कुटी सुपौली मौजा लोनियन पूरवा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 4-सुखबीर कुमार उर्फ हया चौहान पुत्र राधे लाल सा0 खपुरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर 5-सुनीला कुमार पुत्र स्व0 नेतराम सा0 खपुरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गैंग बनाकर सामूहिक रूप से चोरी जैसे गम्भीर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना गौरीबाजार में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 18.07.2022 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡थाना तरकुलवा- मु0अ0स0 194/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि0 व 12(1) पासपोर्ट अधि0 नाम अभि0- 1- विजय प्रताप यादव पुत्र रामप्रीत यादव सा0 गोलउथा थाना मदनपुर जनपद देवरिया।

➡थाना खुखुन्दू- मु0अ0स0 109/2022 धारा 363 भादवि0 नाम अभि0-1- अमित यादव पुत्र भोला यादव सा0 चहलवा थाना सुजौली जनपद बहराइचा

04-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 18.07.2022 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 18.07.2022 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 67 वाहनों से 65,500/- रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।